



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 740 राँची, शुक्रवार,

20 सितम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

संकल्प

13 सितम्बर, 2019

विषय :- जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संपोषित 57989.33 लाख रु० की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनबाद शहरी जलापूर्ति फेज-2, परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

संख्या- 05/जलापूर्ति/धनबाद/02/2019/न०वि०आ०-3770--74 वें संविधान संशोधन के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य के नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन के निमित्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को दो चरणों (फेज-1 एवं फेज-2) में तैयार किया गया है। परियोजना के फेज-1 के अंतर्गत मुख्यतः कतरास क्षेत्र (वार्ड संख्या 1-13) तथा फेज-2 के अंतर्गत सिंदरी एवं धनबाद मुख्य शहर में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना को दो चरणों में विभक्त करने का प्रमुख कारण अलग स्रोतों से प्रस्तावित वित्तपोषण एवं भूमि की सुलभ उपलब्धता है। दोनों चरणों में से फेज 1 की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.07.2018 को हुई बैठक में मद संख्या 16 के अंतर्गत अमृत योजनान्तर्गत प्रदान की गई थी। संदर्भित परियोजना फेज-2 है, जिसका वित्तपोषण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

2. धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना (फेज-2) का वित्त पोषण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से करने के प्रस्ताव पर उपायुक्त-सह-अध्यक्ष DMFT धनबाद की अध्यक्षता में आहूत धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट प्रबंधकीय समिति की दिनांक-28.02.2019 की बैठक में कंडिका-1 क्रमांक-1 अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है। (DMFT की बैठक की कार्यवाही संलग्न Annexure-1)
3. धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 के अंतर्गत मैथन जलाशय में इंटेक वेल, कांड्रा एवं भेलाटांड में क्रमशः 5.5 एवं 10 MLD के दो WTP समुचित वितरण व्यवस्था तथा एक GLSR का निर्माण किया जायेगा ताकि प्रस्तावित क्षेत्र में न सिर्फ शत प्रतिशत Network Coverage हो अपितु Water Pressure की समस्या का समुचित समाधान भी संभव हो सके।
4. उपर्युक्त परियोजना, अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network) के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक की योजना के अनुसार Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत धांगी पहाड़ी में एक नए जलाशय (GLSR) का निर्माण किया जायेगा। धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना फेज-2 के अंतर्गत लगभग 76079 घरों में जल संयोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
5. इस परियोजना के क्रियान्वयन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24X7 जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा।
6. इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा वित्त पोषित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत Model Bid Document का उपयोग किया जाएगा।
7. उक्त परियोजना का क्रियान्वयन जुडको लि० द्वारा खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया (National Open Competitive Bidding) के माध्यम से किया जाएगा। जुडको लि० द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य को ससमय निष्पादन कर सुयोग्य एजेंसी/संवेदक को कार्य आवंटित किया जाएगा।
8. प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन अवधि 36 माह निर्धारित है।
9. इस परियोजना के प्रस्तावित अवयव निम्नलिखित हैं:-

SN	Components	Details
1	Source	Maithon Dam
		Damodar River
2	Water Treatment Plant	5.5 MLD WTP at Kandra
		10 MLD WTP at Bhelatand
3	Ground level Service Reservoir (GLSR) – 1 No.	8600 KL
4	House service connections with meters	76,079 Nos
5	Raw Water Rising main	45.98 Kms
6	Clear Water Rising main	6.93 Kms
7	Distribution Network	530.62 Kms.
8	SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)	Up to GLSR outlets.

10. परामर्शी NJS Engineer India Pvt. Ltd., Pune द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदत्त है :-

SN	Item Description	Total Amount in INR.
A	CAPITAL COST	
1	Estimate of New Intake Well at Maithon (77 MLD)	327,664,850.55
2	Estimate of Electrical & Mechanical Components at New Intake Well Near Maithon Dam	98,830,535.79
3	Estimate of Raw Water Rising Main from Maithon to Bhelatand WTP	1,011,107,575.00
4	Estimate of new WTP of 5.5 MLD capacity at Kandra with additional Clear Water Storage of 500 KL	19,515,357.00
5	Estimate of Electrical & Mechanical Components at Kandra WTP	7,890,413.53
6	Estimate of new WTP of 10 MLD at Bhelatand with additional Clear Water Storage of 1400 KL	32,513,070.10
7	Estimate of Electrical & Mechanical Components at Bhelatand WTP	28,278,974.45
8	Estimate of Clear Water Rising Main to Feed New GLSR at Dhanghi Hill	124,373,914.00
9	Estimate of New GLSR at Dhanghi Hill	16,946,357.00
10	Estimate of Distribution System (28 Zones)	1,077,108,162.00
	Zone - 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 68, 69, 70, 71 & 72	
11	Estimate of NH-32 Crossing at 5 locations	3,637,924.00
12	Estimate of Railway Crossing at 3 locations	15,703,057.00
13	Estimate of River Crossing at 8 locations	28,081,216.66
14	House Service Connection with meter (76079 nos.)	352,626,165.00
15	Compound Wall with Gate for 1 no. of Proposed GLSR	1,057,316.00
16	Approach Road GLSR at Dhanghi Hill (1310 m)	10,291,799.00
17	Instrumentation, Control & Automation (ICA) for SCADA	224,169,196.20
18	EMP and Environmental Monitoring	1,090,100.00
19	Demolition of existing defunct structures within Proposed GLSR plot at Dhanghi Hill	163,021.04
20	Total Capital Cost in INR:- (A)	3,381,049,004.32
21	Total Capital Cost Including GST @ 12% (1.12*A):- (A1)	3,786,774,884.84
22	Total Capital Cost Including Labour Cess @ 1% on (A1):- (A2)	3,824,642,633.69

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019

B	OTHER CHARGES, FEES & PROVISIONAL COSTS	
23	JUIDCO Charges as per circular dt. 14.12.16 on (A1)	79867749.00
24	DPR Consultancy Charges @ 0.97% on (A1)	36731716.00
25	PMC Charges @ 2.06% on (A1)	78007563.00
26	Provision of Cost for Railway Crossing - Railway Fees	9000000.00
27	Provision of Cost for NH Road Crossing - NH Fees	10000000.00
28	Provision of Cost for Land Acquisition / Right of Way / Right of Use - For laying 1000 mm dia Raw Water Rising Main from Maithon to Bhelatand WTP	231511857.92
	Provision for Instrumentation Control and Automation at Existing Jamadoba WTP (143 MLD) and Jamunia (10MLD)	49973577.80
29	Total Charges Cost in INR:- (B)	495,092,463.72
30	Total Capex (C =A2+B)	4,319,735,097.41
D	5 YEARS EXPENDITURE IN OPERATION & MAINTENANCE	
31	Operation And Maintenance for 1st Year excluding annual repair charges.	222348130.69
32	Operation And Maintenance for 2nd Year (As per item No. 1+10% of item No. 1) Including annual repair charges	260060484.54
33	Operation And Maintenance for 3rd Year (As per item No. 2+10% of item No.2)	286066532.99
34	Operation And Maintenance for 4th Year (As per item No. 3+10% of item No.3)	314673186.29
35	Operation And Maintenance for 5th Year (As per item No. 4+10% of item No.4)	346140504.90
36	Operation And Maintenance of SCADA for 5 Years	20,305,132.50
37	Proposed WTP's Sludge Analysis & Disposal for 5 year O & M Period	3,288,152.90
38	Total O&M for 5 years:- (D)	1,452,882,125.00
39	Electricity Charges for 5 years O&M:- (D0)	1252306907.00
40	O&M excluding electricity charges (D-D0):- (D1)	200,575,218.00
41	O&M Cost including GST @ 12% (D1*1.12):- (D2)	224644244.16
42	O&M Cost Including Labour Cess on (D2) @ 1% :- (D3)	226890686.60
43	Total O&M Cost for 5 years in INR (D = D0+D3):-	1479197593.60
D	Total Project Cost in INR. (C+D)	5,798,932,691.01
44	Say	5798933000.00

11. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 43197.35 लाख रु० है और 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि (OPEX) 14791.97 लाख रु० है अर्थात् कुल प्राक्कलन 57989.33 लाख रु० है।
12. प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजना में Provisional Sum का प्रावधान किया गया है। जिसका उपयोग कालांतर में निम्नलिखित कार्यों में या आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त किसी और कार्य में भी किया जा सकेगा :-
 क - भूमि अधिग्रहण के लिए
 ख - मैथन से भेलाटांड तक 1000 मिमि व्यास के राँ वाटर राइजिंग मेन (Raw Water Rising Main) पाइपलाइन को बिछाने के लिए युटिलिटी शिफ्टिंग और राइट ऑफ वे (RoW) के लिए
13. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 में निहित प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) का गठन एवं जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) नियमावली, 2016 क्रमशः झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या- 854, दिनांक- 07.12.2015 एवं अंक संख्या-218, दिनांक-23.03.2016 द्वारा अधिसूचित है, जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के मार्गदर्शन के अनुसार योजनाओं के चयन, योजनाओं का अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष से राशि विमुक्ति, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित प्रावधान सन्निहित है।
14. योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना जापांक- 357, दिनांक-03.02.2017 में स्पष्ट निर्देशित है कि जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) के अन्तर्गत (PMKKKY) के तहत योजनाओं का चयन, वार्षिक योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पूर्णतः जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) में प्राप्त होने वाली राशि के अन्तर्गत न्यास शासी परिषद्/प्रबंधकीय समिति के अधीन है। इन निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्रस्तावित परियोजना के कुल प्राक्कलित राशि 57989.33 लाख रु० का वहन DMFT कोष से किया जाएगा एवं इसके लिए राशि का हस्तांतरण DMFT कोष से नगर विकास एवं आवास विभाग के शीर्ष 8782 Deposit Head में स्थानान्तरित किया जाएगा।
16. उपरोक्त परियोजना के निर्धारित अवयवों के निर्माण हेतु चिन्हित सभी भूखंड झारखण्ड सरकार की हैं एवं उनके निःशुल्क हस्तांतरण के लिए संबंधित विभाग को अधियाचना प्रेषित की जा चुकी है।
17. चयनित संवेदक द्वारा उद्भूत राशि के स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में अतिरिक्त राशि का वहन कंडिका-14 में उल्लिखित परियोजना मद से किया जाएगा।
18. कार्य निष्पादन के दौरान यदि किसी अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका निपटारा SBD के अनुसार किया जाएगा एवं इसका भुगतान DMFT कोष से किया जाएगा।
19. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए प्राक्कलन में कार्य योजना (O&M Plan) का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-
 क) रख-रखाव हेतु चयन किए जाने वाली संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।

- ख) गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति एवं निर्बाध सेवा के अनुरूप मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, इन मापदण्डों के आधार पर ही चयनित संवेदक को भुगतान किया जायेगा।
- ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charges) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा।
- घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
20. उक्त योजना प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक-11.09.2019 की बैठक में इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT) कोष से समस्त प्राक्कलित राशि एकमुश्त नगर विकास एवं आवास विभाग के शीर्ष 8782 Deposit Head में हस्तानान्तरण करने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करायी जाय।
21. उक्त योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव पर राज्य मंत्रीपरिषद् की दिनांक-11.09.2019 की बैठक में मद संख्या 22 के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

Annexure-1

दिनांक 28.02.2019 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में धनबाद जिला स्तरीय
फाउन्डेशन ट्रस्ट प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति - पंजी के अनुसार।

दिनांक 28.02.2019 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में सभाहर्णालय स्थित कार्यालय में
मे धनबाद जिला स्तरीय फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सर्वप्रथम ट्रस्ट के
कार्य, प्रगत आवंटन/व्यय तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी।

विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों / विभागों से डी०एम०एफ०टी० के तहत योजना से संबंधित प्राप्त
प्रस्तावों पर योजनावार विचार करते हुए प्रबंधकीय समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया -

(1) नगर निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक 05.03.2017, 20.11.2018 तथा 16.02.2019 की बैठक में
पारित डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव -

नगर निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक 05.03.2017, 20.11.2018 तथा 16.02.2019 की बैठक में पारित
डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं में सर्वसम्मति से निम्नांकित योजनाओं पर विचार
किया गया-

क्र०	योजना / प्रस्ताव की विवरणी	प्राप्तकलित राशि
डी०एम०एफ०टी० निधि से शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित प्रस्ताव		
1	धनबाद शहरी जलापूर्ति के लिए NJS द्वारा तैयार DPR जिसकी कुल लागत 560 करोड़ है की स्वीकृति का प्रस्ताव	560.118 करोड़
2	धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के लिए Aqua Pumps infra Venture Pvt. Ltd द्वारा तैयार DPR जिसकी कुल लागत 360 करोड़ है में से पीट वाटर शोधन एवं वितरण के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी कुल लागत ₹ 145.45 करोड़ को डी०एम०एफ०टी० मद से स्वीकृति का प्रस्ताव	145.45 करोड़
3	Supplying and Laying of 100 mm Dia-K-7 Pipe from Shukh Mire to Gaddi Mohalla Under DW&S Division No.1, Dhanbad	19.92 लाख
डी०एम०एफ०टी० निधि से जलापूर्ति हेतु टैंकर क्रय का प्रस्ताव		
4	6 अदद Eicher Pro 5016 Truck Mounted water tanker 9000 लीटर क्षमता का क्रय करने का प्रस्ताव (मूल्य 18,24,995.00/प्रति टैंकर)	1,09,49,970.00
5	6 अदद Eicher Pro 1090 Truck Mounted water tanker 6000 लीटर क्षमता का क्रय करने का प्रस्ताव (मूल्य 11,67,901.00/प्रति टैंकर)	70,07,406.00
डी०एम०एफ०टी० निधि से शहरी आजीविका मिशन के तहत प्राप्त प्रस्ताव		
6	शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत डी०एम०एफ०टी० निधि से 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर विचार।	15.00 Crore
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत एजेंसी को भुगतान का प्रस्ताव		
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत घयनित एजेंसी को किये जाने वाले कार्यों का धनबाद नगर निगम के अशदान का भुगतान डी०एम०एफ०टी० निधि से करने पर विचार	N/A

प्रबंधकीय समिति द्वारा न्यास परिषद से स्वीकृति के प्रत्याशा में क्रमांक 1 से 2 पर अंकित शहरी जलापूर्ति योजनाओं कुल प्राक्कलित राशि 705.568 करोड़ का कार्यान्वयन डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा तथा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं० 357 दिनांक 03.02.2017 की कंडिका 3(iv) के आलोक में योजना की प्राक्कलित राशि 500 करोड़ से अधिक होने के कारण संबंधित तकनीकी विभाग को अपने विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाई करने का निर्देश दिया गया।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 3 पर अंकित जलापूर्ति योजना कुल प्राक्कलित राशि 19.92 लाख ₹ का कार्यान्वयन नगर निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव की, प्रति प्राप्त होने की शर्त पर कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

RS-17957376

प्रबंधकीय समिति द्वारा न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 4 एवं 5 में वर्णित कार्य हेतु टेंकर क्रय की योजना कुल अनुमानित लागत राशि 1,79,57,376.00 ₹0 का न्यास डी0एम0एफ0टी0 निधि से करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 6 पर अंकित योजना शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत डी0एम0एफ0टी0 निधि से 15 करोड़ ₹0 की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 7 पर अंकित द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के तहत धनबाद नगर निगम के अंशदान का भुगतान डी0एम0एफ0टी0 निधि से करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

(2) स्वास्थ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पेजलापूरी / शौचालय निर्माण योजना का कार्य डी.एम.एफ.टी. निधि से कराने की स्वीकृति का प्रस्ताव -

दिनांक 24.01.2019 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में डी0एम0एफ0टी0 निधि से कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वास्थ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पेजलापूरी / शौचालय निर्माण योजना का कार्य डी.एम.एफ.टी. निधि से कराने का प्रस्ताव -

योजना की विवरणी निम्नवत है-

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Construction of Residual Work for Water Supply and Sanitary works in CHC at Pandra, Hura Block, Dhanbad district.	49,60,132.00
2	Construction of Residual Work for Water Supply and Sanitary works in CHC at Dutrapur, Tundi Block, Dhanbad district.	49,60,132.00
3	Construction of Ladies & Gents Toilet Community Health Centre (in Side) Campus (SAHUBAHYAR) at Topchanchi Block, District-Dhanbad.	26,84,450.00
4	Water Supply & Deep Boring Community Health Centre Jhama, Jorapothar (CHASNALLA) Under Jhama Block, Distt- Dhanbad	5,38,850.00
5	Construction of Deep Boring, Ladies & Gents Toilet with Electric and Sanitary work Community Health Centre at Govindpur Block, District-Dhanbad	21,53,500.00
	TOTAL:	1,52,76,864.00

न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 1 से 5 पर अंकित स्वास्थ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पेजलापूरी / शौचालय निर्माण योजना कुल प्राक्कलित 1,52,76,864.00 ₹0 का कार्यान्वयन डी.एम.एफ.टी. निधि से कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(3) डी.एम.एफ.टी. निधि से जिले के सहिया को HBNC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने की स्वीकृति का प्रस्ताव -

झारखण्ड, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार सचिवालय से प्राप्त पत्रांक 239 दिनांक 15.12.2018 के द्वारा से सहिया को HBNC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी.एम.एफ.टी. निधि से जिले के सहिया को HBNC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(4) डी0एम0एफ0टी0 निधि से सदर अस्पताल, धनबाद / स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों / उपकरणों / सामग्रियों के क्रय का प्रस्ताव

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु डी0एम0एफ0टी0 निधि से सदर अस्पताल, धनबाद / स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों / उपकरणों / सामग्रियों के क्रय संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी.एम.एफ.टी. निधि से सदर अस्पताल, धनबाद / स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों / उपकरणों / सामग्रियों के क्रय का निर्णय लिया गया।

(6) डी.एम.एफ.टी. विधि से महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 10 यूनिट अण्डा उत्पादन प्लांट लगाने की स्वीकृति का प्रस्ताव

पत्रांक 11188/2018 दिनांक 02.02.2019 द्वारा महिलाओं के उत्थान के अन्तर्गत 139 में महिलाओं को 10 यूनिट अण्डा उत्पादन प्लांट प्रति यूनिट 2,70,00,000 रुपये से लगाने की स्वीकृति एवं सम्बन्धित राशि देने का अनुमति किया गया है।

सदस्य परिषद से प्रत्येक स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रकल्पीय समिति द्वारा डी.एम.एफ.टी. विधि से 10 यूनिट अण्डा उत्पादन प्लांट लगाने की कुल लागत राशि रु.0 (2,70,00,000 × 10) = 27,00,00,000 रु. की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(6) तोपचंची प्रखण्ड के 9 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव-

दिनांक 11.06.2018 को आयोजित डी.एम.एफ.टी. के प्रकल्पीय समिति की बैठक में दिये गए निर्णय के अन्तर्गत के कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-2, चनबाद से ग्राम सभा से पारित सिन्धुदाहा पंचायत के कुल 9 जलापूर्ति योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त है।

विवरणी निम्नवत है-

क्र.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अनुमति।
1	सिन्धुदाहा में ताम्बुली में पेयजलापूर्ति हेतु व्यवस्था।	7.35093	
2	सिन्धुदाहा में पाण्डेय टोला एवं आदिवासी टोला में पेयजलापूर्ति योजना का कार्य।	13.99985	
3	सिन्धुदाहा दलहौली टोला में जलापूर्ति योजना कार्य।	13.81862	
4	तेल्लोडीह समूह में डीप बोरिंग कर पेयजलापूर्ति कार्य।	14.03667	
5	मोहलीडीह, मोहली टोला, पाण्डेय टोला में डीप बोरिंग कर पेयजलापूर्ति योजना का कार्य।	13.93561	
6	मोहलीडीह सेक्टर टोला में डीप बोरिंग कर पेयजलापूर्ति योजना कार्य।	12.42763	
7	सिन्धुदाहा नैल टोला, तेली टोला, एवं दास टोला में डीप बोरिंग कर जलापूर्ति कार्य।	14.03628	
8	सिन्धुदाहा दुल्हनडीह में डीप बोरिंग कर जलापूर्ति कार्य।	13.59018	
9	सिन्धुदाहा में पाण्डेयडीह, विश्वकर्मा टोला एवं यादव टोला में डीप बोरिंग कर जलापूर्ति कार्य।	13.76289	
	कुल	116.95866	

सदस्य परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रकल्पीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से तोपचंची प्रखण्ड के सिन्धुदाहा पंचायत के ग्राम सभा से पारित प्रस्तावित 9 जलापूर्ति योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि 116.95866 लाख रु.0 का कार्यान्वयन डी.एम.एफ.टी. विधि से कराने का निर्णय लिया गया।

(7) तोपचंची प्रखण्ड के ब्राम्हणडीहा पंचायत के 9 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव-

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-2, चनबाद के पत्रांक- 197 दिनांक 23.02.2019 द्वारा ग्राम सभा से पारित ब्राम्हणडीहा पंचायत के 9 जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन डी.एम.एफ.टी. विधि से कराने का प्रस्ताव प्राप्त है।


विवरणी निम्नवत है-


क्र.	योजना का नाम	प्रा. राशि (लाख में)
1	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDI. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 60 mtr staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Merudih, Topchanchi Block under D.W.&S. Div. No. 2, Channabadi	12.49120


1	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Napsaidih (Niche Tola), Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	12.71397
2	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Napsaidih (Upper Tola), Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	12.75617
3	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Sidhabad (Harjan Tola), Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	12.40231
4	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Sidhabad (Niche Rabidas Tola), Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	13.94863
5	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Kotaidih, Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	13.07512
6	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Ashansingha (Kewat Tola), Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	14.98797
7	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Ashansingha (Singh Tola & Gosa Tola), Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	14.11346
8	Construction of 200x150 mm dia & 150 mtr deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 lr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahmanandha, village- Pathakdih, Topchanchi Block under D.W. & S. Div. No. 2, Dhanbad.	13.14038
TOTAL		119.78816

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में तोपचांची प्रखंड के ग्राम-ब्रह्मानंदा पंचायत के ग्राम सभा से पारित प्रस्तावित 9 जलापूर्ति योजनाएँ कुल प्राक्कलित राशि 119.78816 लाख रु० का कार्यान्वयन डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय लिया गया।

अतः मे धन्यवाद आपन के साथ बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी।



जिला खनन प्रदाधिकारी,
धनबाद।


उप विकास आयुक्त,
धनबाद।


उपायुक्त सह- अध्यक्ष,
डी०एम०एफ०टी०, धनबाद।

आपाक- 46 दिनांक- 02/03/2019

प्रतिनिधि- सभी संबंधित प्रदाधिकारियों / प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक उपचार प्रेषित।


उपायुक्त सह- अध्यक्ष,
डी०एम०एफ०टी०, धनबाद।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के सचिव।